

# IDEALISM : CONCEPT-THINKERS & FEATURE: आदर्शवाद-अवधारणा दार्शनिक एवं मूल मान्यताएं

**DR. SHAKEEL HUSAIN**

HEAD DEPT OF POLITICAL SCIENCE

GOVT VYT PG AUTONOMOUS COLLEGE

DURG CHHATISGARH

ACCREDITED AS A+ BY NAAC



# CONCEPT अवधारणा

- ▶ आदर्शवाद से अभिप्राय उस राजनीतिक विचार धारा से है जो यह मानता है कि राज्य सर्वोपरि है तथा राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने निवासियों का नैतिक विकास करे तथा लोगों की यह जिम्मेदारी है कि अपने नैतिक विकास हेतु राज्य के कानूनों और आदेशों का पालन करें ।
- ▶ व्यक्ति की पूर्णता राज्य में ही है और राज्य व्यक्ति से ऊपर और श्रेष्ठ है ।
- ▶ **राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन ।**
- ▶ राज्य को यह अधिकार है कि वह व्यक्ति के नैतिक विकास हेतु व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों पर उचित प्रकार का प्रतिबंध लगाए
- ▶ आदर्शवाद फांसीवाद जैसे नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन नहीं करता बल्कि प्रतिबंधहीन स्वतंत्रता व अधिकारों की जगह प्रतिबंधयुक्त स्वतंत्रता व अधिकार की वकालत करता है ।
- ▶ यह प्राकृतिक अधिकारों, कानूनों व स्वतंत्रता का विरोध करता है और राज्य को स्वतंत्रता, अधिकारों व कानूनों का स्रोत मानता है ।

# PHILOSOPHERS दार्शनिक

- ▶ **PLATO प्लेटो** – राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है ।
- ▶ **ROUSSEAU- रूसो** – राज्य एक नैतिक संगठन Moral association है । अतः राज्य की आज्ञा पालन का अर्थ है स्वयं के नैतिक संकल्प free moral will का पालन, अतः राजाज्ञा पालन में ही व्यक्ति स्वतंत्र है
- ▶ **IMMANUEL KANT ईमैनूएल कांट**- राज्य सार्वभौमिक विवेक universal reason का प्रतीक है यह लोगो के नैतिक संकल्प का मूर्त रूप है ।
- ▶ **J G FICHTE फिश्टे** - स्वतंत्रता, अधिकार, कानून सब राज्य की देन है । राज्य का अपने नागरिकों पर पूर्ण आधिपत्य होना चाहिए ।
- ▶ **HEGEL हेगेल** – राज्य विश्वात्मा है । राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है State is the landmarch of god. अधिकार कानून आदि विश्वात्मा का बाह्य रूप है अतः इनका पालन ही स्वतंत्रता है ।

# PHILOSOPHERS

## दार्शनिक

- ▶ **T H GREEN** थामस हिल ग्रीन - यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार को उचित प्रकार के प्रतिबंधों सहित मान्यता देता है राज्य का कार्य है व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना करना **Hindering hindrances of good life** . यह आदर्श अधिकार **Ideal Right** का समर्थक है जो राज्य ही दे सकता है।
- ▶ **F H BRADLEY** ब्रैडले - राज्य एक नैतिक सावयव **Moral organism** है । यह व्यक्तियों की नैतिक संकल्पनाओं का मूर्त रूप है ।
- ▶ **BOSANQUET** बोसांके

# FEATURES

## मूल मान्यताएं

- ▶ राज्य साध्य है व्यक्ति साधन ।
- ▶ राज्य का दायित्व है व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना ।
- ▶ राज्य निवासियों के नैतिक संकल्प moral will का सम्मिलित रूप है ।
- ▶ राज्य सर्वोच्च विवेक supreme reason है ।
- ▶ राज्य सार्वभौमिक संकल्प universal will है ।
- ▶ राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है ।
- ▶ स्वतंत्रता, अधिकार, कानून, सबका स्रोत राज्य है
- ▶ स्वतंत्रता व अधिकार का अर्थ है राजाज्ञा का पालन है ।
- ▶ राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है ।



▶ **THANK YOU**